

T.B.C. : 17/15/ET

Booklet Sr. No.0002

**TEST BOOKLET
ECONOMICS
PAPER III**

Time Allowed : 2½ Hours]

[Maximum Marks : 150

All questions carry equal marks.

INSTRUCTIONS

1. Write your Roll Number only in the box provided alongside.
Do not write anything else on the Test Booklet.
2. This Test Booklet contains 75 items (questions). Each item comprises four responses (answers). Choose only one response for each item which you consider the best.
3. After the candidate has read each item in the Test Booklet and decided which of the given responses is correct or the best, he has to mark the circle containing the letter of the selected response by blackening it completely with ball point pen as shown below. *H.B. Pencil should not be used* in blackening the circle to indicate responses on the answer sheet. In the following example, response "C" is so marked :

(A) (B) ● (D)
4. Do the encoding carefully as given in the illustrations. While encoding your particulars or marking the answers on answer sheet, you should blacken the circle corresponding to the choice in full and no part of the circle should be left unfilled. You may clearly note that since the answer sheets are to be scored/evaluated on machine, any violation of the instructions may result in reduction of your marks for which you would yourself be responsible.
5. You have to mark all your responses ONLY on the ANSWER SHEET separately given. *Responses marked on the Test Booklet or in any paper other than the answer sheet shall not be examined.* Use ball point pen for marking responses.
6. All items carry equal marks. Attempt all items.
7. Before you proceed to mark responses in the Answer Sheet fill in the particulars in the front portion of the Answer Sheet as per the instructions.
8. After you have completed the test, hand over OMR answer-sheet to the Invigilator.
9. In case of any discrepancy found in English and Hindi Version in this paper, the English Version may be treated as correct and final.

ECONOMICS

Paper III

Time Allowed : 2½ Hours]

[Maximum Marks : 150

Note :— The paper contains 75 questions. Attempt *all* questions. Each question carries equal marks.

1. According to life cycle hypothesis :
 - (A) Spend more on consumption when their income is high
 - (B) Plan their consumption and saving behaviour over long periods with the intension of allocating their consumption in the best possible way over the entire life time
 - (C) Spend on consumption according to their current income
 - (D) Gear their consumption behaviour to their permanent income

2. What is Investment tax credit ?
 - (A) A tax on credit
 - (B) It is the rate of interest on credit given by the banks
 - (C) It is government subsidy for investment
 - (D) None of the above

अर्थशास्त्र

प्रश्न-पत्र III

समय : 2¼ घण्टे]

[पूर्णांक : 150

नोट : इस प्रश्न-पत्र में 75 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं।

1. जीवन-चक्र परिकल्पनानुसार :

- (A) उपभोग पर अधिक खर्च करें जब उनकी आय अधिक है
- (B) पूरे जीवन काल में सर्वोत्तम संभावित तरीके से अपने उपभोग का आवंटन करने के इरादे के साथ लम्बे समय पर अपने उपभोग और बचत व्यवहार की योजना बनाना
- (C) वर्तमान आय के अनुसार उपभोग पर खर्च करना
- (D) अपने उपभोग व्यवहार को स्थायी आय के रूप में सजौयें

2. निवेश कर जमा क्या है ?

- (A) जमा पर कर
- (B) बैंकों द्वारा दिये गये जमा पर ब्याज की दर
- (C) निवेश पर सरकार की सब्सिडी
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. If the production function is

$$Q = f(K, L)$$

and the cost function is

$$C = wL + rK$$

then the profit function is :

- (A) $f(K, L) - (wL + rK)$ (B) $Pf(K, L) - P(wL + rK)$
(C) $Pf(K, L) - (wL + rK)$ (D) $f(K, L) - K(wL + rK)$

4. Laspeyres, or base-weighted, Price Index is :

- (A) $\frac{\sum p_0^i q_0^i}{\sum p_i q_0}$ (B) $\frac{\sum p_1^i q_0^i}{\sum p_0^i q_0^i}$
(C) $\frac{\sum p_i^i q_1^i}{\sum p_0^i q_0}$ (D) None of these

5. Even the production function

$$F(K, L) = AK^\alpha L^\beta$$

where A, α and β are positive constants :

- (A) If $\alpha + \beta = 1$ there are constant returns to scale
(B) If $\alpha + \beta = 1$ there are decreasing returns to scale
(C) If $\alpha + \beta = 1$ there are increasing returns to scale
(D) None of the above

3. यदि उत्पादन फलन

$$Q = f(K, L)$$

है और मूल्य फलन

$$C = wL + rK$$

है, तो लाभ फलन होगा :

- (A) $f(K, L) - (wL + rK)$ (B) $Pf(K, L) - P(wL + rK)$
(C) $Pf(K, L) - (wL + rK)$ (D) $f(K, L) - K(wL + rK)$

4. लैसपैरेस, या बेस-वेटेड, मूल्य सूचकांक है :

- (A) $\frac{\sum p_0^i q_1^i}{\sum p_1^i q_0^i}$ (B) $\frac{\sum p_1^i q_0^i}{\sum p_0^i q_1^i}$
(C) $\frac{\sum p_1^i q_1^i}{\sum p_0^i q_0^i}$ (D) इनमें से कोई नहीं

5. उत्पादन फलन

$$F(K, L) = AK^\alpha L^\beta$$

जहाँ A, α और β घनात्मक स्थिरांक हैं :

- (A) यदि $\alpha + \beta = 1$ जहाँ स्केल एक स्थिर रिटर्न
(B) यदि $\alpha + \beta = 1$ जहाँ स्केल के लिए एक घटता हुआ रिटर्न है
(C) यदि $\alpha + \beta = 1$ जहाँ स्केल के लिए एक बढ़ता हुआ रिटर्न
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

6. If the utility function

$$U(x, y) = x + \log y,$$

then :

(A) $MRS = x$

(B) $MRS = x/y$

(C) $MRS = y/x$

(D) $MRS = y$

7. Each seller determines his price assuming that his competitor will keep his price constant; under :

(A) Price Leadership Model

(B) Bertrand's Model

(C) Samuelson's Model

(D) Edgeworth Model

8. A.P. Lerner monopoly power index is defined by :

(A) $\frac{P - AC}{AR}$

(B) $\frac{P - MC}{P}$

(C) $\frac{MR - MC}{P}$

(D) $\frac{AC - MC}{AR}$

9. Quasi-rent may be defined as :

(A) Price - MC

(B) Price - ATC

(C) Price - AVC

(D) Price - AFC

6. यदि उपयोग फलन

$$U(x, y) = x + \log y$$

तब :

(A) $MRS = x$

(B) $MRS = x/y$

(C) $MRS = y/x$

(D) $MRS = y$

7. प्रत्येक विक्रेता अपने मूल्य का निर्धारण करता है, यह मानते हुए कि उसका प्रतियोगी अपने मूल्य को, किसके अन्तर्गत स्थिर रखेगा ?

(A) मूल्य नेतृत्व मॉडल

(B) बर्टेन्डस मॉडल

(C) सैम्युल्सन मॉडल

(D) एजवर्थ मॉडल

8. A.P. लर्नर एकाधिकार शक्ति सूचकांक किसके द्वारा परिभाषित है ?

(A) $\frac{P - AC}{AR}$

(B) $\frac{P - MC}{P}$

(C) $\frac{MR - MC}{P}$

(D) $\frac{AC - MC}{AR}$

9. क्वासी-रेन्ट को परिभाषित किया जा सकता है :

(A) मूल्य - MC

(B) मूल्य - ATC

(C) मूल्य - AVC

(D) मूल्य - AFC

10. Who gave the concept of 'reserve army of labour' ?

(A) Adam Smith

(B) David Ricardo

(C) J.S. Mill

(D) Karl Marx

11. Elasticity of substitution is :

(A)
$$\sigma = \frac{\text{Percentage change in } K/L}{\text{Percentage change in price of } K}$$

where K = capital; and L = labour

(B)
$$\sigma = \frac{d(K/L)}{d(r)} \times \frac{r}{K/L}$$

where r = marginal rate of substitution

(C) (A) and (B) both

(D) None of the above

12. If production function is $F(K, L) = AK^aL^b$, where A = positive constant;

K = capital; L = labour a and b are constants and greater than 0, then :

(A) elasticity of substitution $\sigma_{KL} = 1$

(B) $\sigma_{KL} = 1/2$

(C) $\sigma_{KL} = a/b$

(D) $\sigma_{KL} = a + b$

10. 'लेबर की आरक्षित सेना' यह कल्पना किसने दी थी ?

- (A) एडम स्मिथ (B) डेविड रिकार्डो
(C) जे.एस. मिल (D) कार्ल मार्क्स

11. प्रतिस्थापन की प्रत्यास्थता है :

(A) $\sigma = \frac{K/L \text{ में प्रतिशत बदलाव}}{K \text{ के मूल्य में प्रतिशत बदलाव}}$

जहाँ K = पूँजी और L = लेबर

(B) $\sigma = \frac{d(K/L)}{d(r)} \times \frac{r}{K/L}$

जहाँ r = प्रतिस्थापन की सीमान्त दर

- (C) (A) और (B) दोनों
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. यदि उत्पादन फलन $F(K, L) = AK^aL^b$ है, जहाँ A = घनात्मक स्थिरांक; K = पूँजी; L = लेबर
a और b स्थिर हैं और 0 से अधिक हैं, तब :

- (A) प्रतिस्थापन की प्रत्यास्थता $\sigma_{KL} = 1$
(B) $\sigma_{KL} = 1/2$
(C) $\sigma_{KL} = a/b$
(D) $\sigma_{KL} = a + b$

13. Foreign Trade Multiplier is given by :

(A) $K = \frac{dy}{ds + dm}$

(B) $K = \frac{dx}{dm}$

(C) $K = \frac{ds}{dy \cdot dm} + \frac{dm}{dy}$

(D) $K = ds + dM$

14. Benefits of devaluation for developing countries are best when :

(A) It is accompanied by a decline in short-term interest rates

(B) Developing country's demand for imports is inelastic

(C) Devaluation brings about price rises in export industries

(D) Foreign demand for the developing country's export is elastic

15. India is *not* a member of :

(A) ASEAN

(B) UNO

(C) G-15

(D) Commonwealth

16. Which of the following countries is *not* a member of BRICS Nations ?

(A) China

(B) Russia

(C) Bangladesh

(D) South Africa

13. विदेश व्यापार गुणक दिया जाता है :

(A) $K = \frac{dy}{ds + dm}$

(B) $K = \frac{dx}{dm}$

(C) $K = \frac{ds}{dy \cdot dm} + \frac{dm}{dy}$

(D) $K = ds + dM$

14. विकासशील देशों के लिए अवमूल्यन के लाभ सर्वोत्तम हैं जब :

(A) यह लघु मियादी ब्याज दरों में गिरावट के साथ हो

(B) आयात के लिए विकासशील देशों की मांग अप्रत्यास्थ है

(C) अवमूल्यन निर्यात उद्योगों में मूल्य में उछाल लाता है

(D) विकासशील देशों के निर्यात के लिए विदेशी मांग प्रत्यास्थ है

15. भारत किसका सदस्य नहीं है ?

(A) ASEAN

(B) UNO

(C) G-15

(D) कॉमनवेल्थ

16. निम्नलिखित में से कौनसा देश BRICS राष्ट्रों का सदस्य नहीं है ?

(A) चीन

(B) रूस

(C) बांग्लादेश

(D) दक्षिण अफ्रीका

17. किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है ?

- (1) बिहार
- (2) पश्चिम बंगाल
- (3) पंजाब
- (4) केरल

(A) (1), (2)

(B) (2), (4)

(C) (1), (3), (4)

(D) (1), (2), (3), (4)

18. परेडो-दक्ष कर ढाँचा क्या है ?

(A) कर ढाँचा जहाँ प्रत्येक कर की एकसमान मात्रा देता है

(B) कर ढाँचा जो एक बराबर बलिदान पर आधारित है

(C) कर ढाँचा जहाँ कोई अन्य कर ढाँचा अस्तित्व में नहीं होता जो आखिरकार एक व्यक्ति को, बिना किसी का बुरा करे, उत्तम बनाये

(D) एक उन्नतशील कर ढाँचा

19. काल्डोर की हितकारी कसौटी क्या है ?

(A) एक नीति जो कुल उत्पादन और सकल आय बढ़ाती है, यह सम्भव होता है कि कुल हित कार्य बढ़ा सके, जिनके नीति में बदलाव से हानि हुई है उन्हें हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके और बाकी समुदाय उत्तम रह सके

(B) नीतिगत बदलाव जो अधिकांश जनसंख्या के लिए लाभकारी हैं

(C) नीतिगत बदलाव जो सबसे गरीब लोगों के लिए लाभकारी हैं

(D) नीतिगत बदलाव जो सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए एकसमान रूप में हितकारी हैं

20. If a function $f(x_1, x_2)$ is homogeneous of degree n , then :
- (A) $f(kx_1, kx_2) = kf(x_1, x_2)$
 - (B) $f(kx_1, kx_2) = 1/kf(x_1, x_2)$
 - (C) $f(kx_1, kx_2) = k^n f(x_1, x_2)$
 - (D) $f(kx_1, kx_2) = k^{n-1} f(x_1, x_2)$
21. If a production function $f(K, L)$ is a homogeneous function of degree n then :
- (A) marginal productivities of K (capital) and L (labour) are not homogeneous functions
 - (B) $MP_K = 0$ and $MP_L = 0$
 - (C) MP_K and MP_L are homogeneous functions of degree $(n - 1)$
 - (D) (A), (B) and (C) all are correct
22. Samuelson's revealed preference hypothesis assumes :
- (A) Income Elasticity of Demand is Negative
 - (B) Income Elasticity of Demand is Positive
 - (C) Income Elasticity is Irrelevant
 - (D) None of the above
23. If the shape of demand curve is rectangular hyperbola. What is the value of coefficient of price elasticity of demand is equal to :
- (A) Zero
 - (B) Infinity
 - (C) Undefined
 - (D) One

20. यदि फलन $f(x_1, x_2)$, n डिग्री का एक समघात है तब :

(A) $f(kx_1, kx_2) = kf(x_1, x_2)$

(B) $f(kx_1, kx_2) = 1/kf(x_1, x_2)$

(C) $f(kx_1, kx_2) = k^n f(x_1, x_2)$

(D) $f(kx_1, kx_2) = k^{n-1} f(x_1, x_2)$

21. यदि एक उत्पादन फलन $f(K, L)$, n डिग्री का एक समघात है तब :

(A) K (पूँजी) और L (लेबर) की सीमान्त उत्पादकता समघात फलन नहीं हैं

(B) $MP_K = 0$ और $MP_L = 0$

(C) MP_K और MP_L डिग्री $(n - 1)$ के समघात फलन हैं

(D) (A), (B) तथा (C) सभी सही हैं

22. सैम्युल्सन उद्घाटित वरीयता परिकल्पना मानती है :

(A) मांग की आय प्रत्यास्थता ऋणात्मक है

(B) मांग की आय प्रत्यास्थता धनात्मक है

(C) आय प्रत्यास्थता अनुचित है

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

23. यदि मांग वक्र का आकार आयताकार अतिपरवलय है। मांग का मूल्य प्रत्यास्थता के गुणांक का मान किसके बराबर है ?

(A) शून्य

(B) अनन्त

(C) अपरिभाषित

(D) एक

24. Ridge lines are the locus of points of isoquants; where the marginal products of factors production is equal to :

- (A) Maximum (B) Equal to one
(C) Zero (D) Greater than one

25. Market failure is explained by which of the following example(s) :

- (A) Demand decreases hence firm have to make more worker redundant
(B) Prices do not includes the full social cost of production
(C) A firm leave the industry as it is unable to find a market for its product
(D) All of the above

26. If the production function

$$Q = AK^aL^b$$

then it is :

- (A) homogeneous of degree n
(B) not a homogeneous function
(C) homogeneous of degree A
(D) homogeneous of degree $(a + b)$

24. रिज लाइन्स, समक्वन्टों के बिन्दुओं के बिन्दुपथ हैं, जहाँ उत्पादन के गुणक के सीमान्त उत्पाद किसके बराबर हैं ?
- (A) अधिकतम (B) एक के बराबर
(C) शून्य (D) एक से अधिक
25. बाजार असफलता, निम्नलिखित में से किस उदाहरण/णों से वर्णित की जा सकती है ?
- (A) मांग घटती है अतः फर्म को अधिक कामगारों को अनावश्यक बनाना होगा
(B) मूल्य, उत्पादन के पूर्ण सामाजिक मूल्य को शामिल नहीं करता
(C) एक फर्म उद्योग को छोड़ देती है जब वह अपने उत्पाद के लिए बाजार का पता न लगा सके
(D) उपर्युक्त सभी
26. यदि उत्पादन फलन

$$Q = AK^aL^b$$

अतः यह है :

- (A) डिग्री n के समघात
(B) समघात फलन नहीं है
(C) डिग्री A के समघात
(D) डिग्री $(a + b)$ के समघात

27. An indifference curve shows all those combinations of two goods amongst which the consumer is indifferent. The indifference curve will be convex to the origin if :

(A) $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$

(B) $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$

(C) $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$

(D) $0 < \frac{d^2y}{dx^2} < 1$

28. Autocorrelation means :

(A) disturbance terms are independent of each other

(B) disturbance terms are irrelevant

(C) disturbance terms are interrelated as a result least square estimates are unbiased but the variance of the estimates is not minimum

(D) dependent and independent variables are perfectly co-related each other

29. Multicollinearity means :

(A) In multiple regression model independent variables X_i and X_j are interrelated

(B) Disturbance terms are interrelated

(C) Mean of disturbance term is not zero

(D) All of the above are true

27. एक तटस्थ वक्र दो सामानों के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसमें कि उपभोक्ता उदासीन है। तटस्थ वक्र उत्पत्ति के उत्तल होगा यदि :

(A) $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$

(B) $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$

(C) $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$

(D) $0 < \frac{d^2y}{dx} < 1$

28. स्वतः सहसम्बन्ध का अर्थ है :

(A) विक्षोभ एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं

(B) विक्षोभ अनुचित हैं

(C) विक्षोभ एक-दूसरे से सम्बन्धित है जिसके परिणामस्वरूप अवकलित अल्पतम वर्ग निष्पक्ष हैं परन्तु अवकलन का विचर न्यूनतम नहीं है

(D) निर्भर और स्वतन्त्र चर परस्पर अच्छी प्रकार सहसम्बन्धित हैं

29. बहुसरेखिता का अर्थ है :

(A) बहुसमाश्रयण मॉडल में स्वतंत्र चर X_i और X_j परस्पर सम्बन्धित हैं

(B) विक्षोभ पद परस्पर सम्बन्धित हैं

(C) विक्षोभ पद का औसत शून्य नहीं है

(D) उपर्युक्त सभी सत्य हैं

30. According to census 2011 which of the following Indian States have sex ratio higher than the national average ?

- (A) Gujrat (B) Maharashtra
(C) West Bengal (D) All of these

31. Match List I (Institutions) with List II (Year of establishment) and select the correct answer from the codes given below :

List I	List II
(a) IDBI	(i) 1988
(b) SIDBI	(ii) 1989
(c) IFCI	(iii) 1964
(d) SEBI	(iv) 1948

- (a) (b) (c) (d)
(A) (i) (ii) (iv) (iii)
(B) (iii) (ii) (iv) (i)
(C) (ii) (iii) (i) (iv)
(D) (iv) (iii) (ii) (i)

32. Adverse supply shock occurs due to :

- (A) growth in the economy
(B) increase in income tax
(C) adoption of policy of import substitution
(D) increase in the price of inputs

30. जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है :

- (A) गुजरात (B) महाराष्ट्र
(C) पश्चिमी बंगाल (D) ये सभी

31. सूची I (संस्थान) को सूची II (स्थापना का वर्ष) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I	सूची II
(a) IDBI	(i) 1988
(b) SIDBI	(ii) 1989
(c) IFCI	(iii) 1964
(d) SEBI	(iv) 1948

- (a) (b) (c) (d)
(A) (i) (ii) (iv) (iii)
(B) (iii) (ii) (iv) (i)
(C) (ii) (iii) (i) (iv)
(D) (iv) (iii) (ii) (i)

32. आपूर्ति झटका किस कारण होता है ?

- (A) अर्थ में वृद्धि
(B) आयकर में वृद्धि
(C) आयात प्रतिस्थापन की नीति का अंगीकरण
(D) निवेश के मूल्य में वृद्धि

33. Natural rate of unemployment is :
- (A) rate of unemployment which would exist even at full employment level
 - (B) rate of unemployment which occurs due to business cycle
 - (C) seasonal
 - (D) due to technological change
34. According to efficiency wage theory many firms may pay :
- (A) Lower wages to workers to maximise profit
 - (B) Minimum wages fixed by the government
 - (C) Above market clearing wages in order to obtain the loyalty of workers or to provide workers the incentive to work hard to avoid being fired
 - (D) Wages to workers in kind
35. If the price elasticity of demand is unity, marginal revenue would be :
- (A) Equal to one
 - (B) Equal to zero
 - (C) Infinity
 - (D) Negative
36. Who prepared Gandhian Plan ?
- (A) R.C. Dutt
 - (B) M.N. Roy
 - (C) Shriman Narayan
 - (D) None of these

33. बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है ?

- (A) बेरोजगारी की दर जो पूर्ण रोजगार स्तर पर भी रहेगी
- (B) बेरोजगारी की दर जो व्यापार चक्र के कारण होती है
- (C) यह मौसम के अनुसार है
- (D) प्रौद्योगिकी बदलाव के कारण है

34. दक्षता पारिश्रमिक सिद्धान्त के अनुसार बहुत-सी फर्म अदायगी करती हैं :

- (A) लाभ बढ़ाने के लिए कामगारों को निम्नतर पारिश्रमिक देती हैं
- (B) न्यूनतम पारिश्रमिक सरकार द्वारा परिष्कृत है
- (C) कामगारों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए या लड़ाई से बचने से कामगारों को परिश्रम करने के लिए प्रेरक देने के लिए, बाजार निर्बोध पारिश्रमिक से अधिक
- (D) कामगारों को दया में पारिश्रमिक

35. यदि मांग की मूल्य प्रत्यास्थता एकता है; तो सीमान्त आमदनी होगी :

- (A) एक के बराबर
- (B) शून्य के बराबर
- (C) अनन्त
- (D) ऋणात्मक

36. गांधी की योजना किसने बनायी थी ?

- (A) आर.सी. दत्त
- (B) एम.एन. राय
- (C) श्रीमन नारायण
- (D) इनमें से कोई नहीं

37. Zero-Base Budgeting (ZBB) :

- (A) is more logical and leads to better financial management
- (B) helps in judicious allocation of scarce resources
- (C) is a management concept
- (D) implies constructing a budget without any reference to what has gone before

38. In the linear programming problem the optimal value of the objective functions of the primal and the dual :

- (A) are negative to each other
- (B) are different to each other
- (C) are equal to each other
- (D) none of these

39. Price discrimination is possible and participable only when :

- (i) No resale of the commodity.
- (ii) Higher price in elastic market and lower price in less elastic market.
- (iii) Segmentation of market.

- (A) (i) and (iii)
- (B) (i) and (ii) only
- (C) (iii) only
- (D) (i), (ii) and (iii)

37. जीरो-बेस बजटिंग (ZBB) क्या है ?

- (A) अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और अधिक अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की ओर ले जाता है
- (B) कमी के स्रोतों के विवेकपूर्ण आवंटन में मदद करता है
- (C) यह प्रबन्धन परिकल्पना है
- (D) पहले क्या हुआ, ऐसे बिना किसी संदर्भ के यह बजट का निर्माण करता है

38. रेखीय प्रोग्रामिंग प्रश्न में प्रमुख और द्वयात्मक के उद्देश्य फलन का इष्टतम मान :

- (A) एक दूसरे के लिए ऋणात्मक है
- (B) एक दूसरे से भिन्न है
- (C) एक दूसरे के बराबर है
- (D) इनमें से कोई नहीं

39. मूल्य भेदभाव संभव है और केवल भाग लेने योग्य है, जब :

- (i) माल का पुनः विक्रय नहीं है
- (ii) प्रत्यास्थ बाजार में उच्चतर मूल्य और कम प्रत्यास्थ बाजार में निम्नतर मूल्य
- (iii) बाजार का विखण्डन

- (A) (i) और (iii)
- (B) केवल (i) और (ii)
- (C) केवल (iii)
- (D) (i), (ii) और (iii)

40. Arrow's impossibility theorem is related to :
- (A) Adverse selection (B) Moral hazard
(C) Voting paradox (D) Imperfect information
41. Cournot Model is based on the following assumptions. Select the *correct* answer from the codes given below :
- (i) Duopoly
(ii) Given the rival output
(iii) Both firms maximise profit
(iv) Profit is not objectives of firms
- Codes :*
- (A) (i) and (ii) only (B) (ii) and (iii) only
(C) (i), (ii) and (iii) only (D) All of these
42. As per census 2011 data which of the following states in India experienced decadal growth of population lower than the national average :
- (A) Bihar (B) Uttar Pradesh
(C) Himachal Pradesh (D) Haryana
43. "Yellow Revolution" is related to :
- (A) Agriculture production (food) (B) Oilseeds production
(C) Egg production (D) Gold production

40. एरो का असंभावित सिद्धान्त किससे सम्बन्धित है ?

- (A) प्रतिकूल चयन (B) नैतिक जोखिम
(C) वोटिंग विरोधाभास (D) अपूर्ण सूचना

41. कूर्नो मॉडल निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए :

- (i) द्वयधिकार
(ii) प्रतिद्वन्द्वी निर्गम दिया जाना
(iii) दोनों फर्म लाभ को अधिक करती हैं
(iv) लाभ फर्म का उद्देश्य नहीं है

कूट :

- (A) केवल (i) और (ii) (B) केवल (ii) और (iii)
(C) केवल (i), (ii) और (iii) (D) ये सभी

42. जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौनसे राज्य ने जनसंख्या की दशाब्द वृद्धि का अनुभव किया है जो राष्ट्रीय औसत से कम है ?

- (A) बिहार (B) उत्तर प्रदेश
(C) हिमाचल प्रदेश (D) हरियाणा

43. 'पीली क्रान्ति' किससे सम्बन्धित है ?

- (A) कृषि उत्पादन (खाद्य) (B) तिलहन उत्पादन
(C) अंडा उत्पादन (D) स्वर्ण उत्पादन

44. As per Fifth Economic Census 2005 which of the following states have maximum enterprises ?


(A) Maharashtra

(B) Andhra Pradesh

(C) Tamil Nadu

(D) West Bengal

45. Which combination(s) in the following diagram is/are also known as 'bliss point(s)' ?



(A) *a* and *b*

(B) Only *c*

(C) *d*, *e* and *f*

(D) Only *f*

44. पाँचवे आर्थिक सर्वेक्षण 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिक उद्यम हैं ?


(A) महाराष्ट्र

(B) आन्ध्र प्रदेश

(C) तमिलनाडु

(D) पश्चिमी बंगाल

45. निम्नलिखित चित्र में कौनसा/से संयोजन ब्लिस बिन्दु कहा/कहे जाता/जाते है/हैं :



(A) a और b

(B) केवल c

(C) d , e और f

(D) केवल f

46. Saroj's budget line for good 'X' and good 'Y' have intercepts of 70 units of good 'X' and 50 units of good 'Y'. If the price of good 'X' is Rs. 5 per unit, calculate the following :

(i) Income of Saroj

(ii) Price of good Y and

(iii) Slope of budget line

(A) (i) 350 (ii) 7 (iii) $-5/7$

(B) (i) 350 (ii) 10 (iii) $-5/10$

(C) (i) 350 (ii) 5 (iii) $-5/5$

(D) (i) 350 (ii) 7 (iii) $-6/7$

47. "We have always known that needless self-interest was bad morals; we know now that it is bad economics." This statement was given by :

(A) Harvey Rosan

(B) Pareto

(C) Franklin D. Roosevelt

(D) J.R. Hicks

48. The analysis extending the standard IS-LM model to the open economy under perfect capital mobility has a special name on the name of economist's :

(A) Simon Kuznets

(B) Mundell-Fleming

(C) Franklin

(D) J.R. Hicks

46. गुड 'X' और गुड 'Y' के लिए सरोज की बजट रेखा में गुड 'X' की 70 इकाइयाँ और गुड 'Y' की 50 इकाइयाँ हैं। यदि गुड 'X' का मूल्य 5 रुपये प्रति इकाई है, तो निम्नलिखित का अवकलन कीजिए :

(i) सरोज की आय

(ii) गुड 'Y' का मूल्य

(iii) बजट रेखा का ढलान

(A) (i) 350 (ii) 7 (iii) $-5/7$

(B) (i) 350 (ii) 10 (iii) $-5/10$

(C) (i) 350 (ii) 5 (iii) $-5/5$

(D) (i) 350 (ii) 7 (iii) $-6/7$

47. "हम हमेशा जानते हैं कि अनावश्यकता और स्वार्थी एक बुरी नीति है, हम अब यह जानते हैं कि यह बुरा अर्थशास्त्र है।" यह कथन किसने दिया था ?

(A) हार्वे रोसन

(B) परेटो

(C) फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट

(D) जे.आर. हिक्स

48. उपयुक्त पूंजी गतिशीलता के अन्तर्गत खुले अर्थ के लिए मानक IS-LM मॉडल के विस्तार विश्लेषण का एक विशेष नाम किस अर्थशास्त्री के नाम पर रखा गया है ?

(A) साइमन कुजनेट्स

(B) मुन्डेल-फ्लेमिंग

(C) फ्रैंकलिन

(D) जे.आर. हिक्स

49. The crowding out effect is zero when :
- (A) money demand is perfectly interest inelastic, or investment is perfectly interest elastic
 - (B) IS curve is falling and LM curve is rising
 - (C) there is liquidity trap, or investment is perfectly interest elastic
 - (D) none of the above
50. Average industrial growth rate during eleventh plan period was :
- (A) 8.7
 - (B) 7.2
 - (C) 9.6
 - (D) 6.5
51. RBI calculates four components of money supply; M_1 , M_2 , M_3 , M_4 . Which one of the following statements is *not* correct ?
- (A) $M_1 = \text{Currency with public} + \text{Demand deposits with banks}$
 - (B) $M_2 = M_1 + \text{Post office saving deposits}$
 - (C) $M_3 = M_1 + M_2$
 - (D) $M_4 = M_3 + \text{Total post office deposits}$

49. क्राउडिंग आउट प्रभाव शून्य होता है जब :

- (A) धन की मांग उपयुक्त रूप में ब्याज अप्रत्यास्थ है या निवेश उपयुक्त रूप में ब्याज प्रत्यास्थ है
- (B) IS वक्र गिर रहा होता है और LM वक्र उठ रहा होता है
- (C) वहाँ एक द्रवता जाला है या निवेश उपयुक्त रूप में ब्याज प्रत्यास्थ है
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. ग्यारहवें योजना काल में औसत औद्योगिक वृद्धि दर क्या थी ?

- (A) 8.7 (B) 7.2
- (C) 9.6 (D) 6.5

51. धन आपूर्ति M_1 , M_2 , M_3 , M_4 के चार अवयवों का RBI आकलन करती है। निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (A) M_1 = जनता के पास धन + मांग जमा बैंक के पास
- (B) M_2 = M_1 + डाकघर बचत जमा
- (C) M_3 = M_1 + M_2
- (D) M_4 = M_3 + कुल डाकघर जमा

52. Which of the following is/are correct for shifting of base year from 2004-05 to 2011-12 ?

(1) The improvement in data and methods put India at par with international standards of GDP estimation.

(2) The new series lowered the number rather than typically high upward revision seen in many countries.

(A) Only (1)

(B) Both (1) and (2)

(C) Only (2)

(D) Neither (1) nor (2)

53. As per Budget Estimate what are the fiscal and primary deficit respectively as percentage of GDP for the year 2014-15 ?

(A) 4.5 and 1.2

(B) 4.8 and 1.8

(C) 4.1 and 0.8

(D) 4.5 and 2.7

54. What was the annual average growth of agriculture and allied sectors in India during 11th five year plan ?

(A) 2.5%

(B) 2.8%

(C) 4.1%

(D) 3.8%

52. आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 पर स्थानान्तरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?

- (1) GDP अवकलन के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी पर, आंकड़ों और विधियों के सुधार के लिए भारत को रखने पर
- (2) नयी शृंखला ने संख्या को प्रारूपी उच्च ऊर्ध्वाधर पुनर्निरीक्षण की बजाय कम कर दिया है जैसा कि बहुत से देशों में देखा गया है

- (A) केवल (1) (B) (1) और (2) दोनों
- (C) केवल (2) (D) न तो (1) और न ही (2)

53. बजट अवकलन के अनुसार, 2014-15 के लिए GDP की प्रतिशतता में क्रमशः वित्तीय और प्राथमिक घाटे क्या हैं ?

- (A) 4.5 और 1.2 (B) 4.8 और 1.8
- (C) 4.1 और 0.8 (D) 4.5 और 2.7

54. भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और समवर्गी क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि क्या थी ?

- (A) 2.5% (B) 2.8%
- (C) 4.1% (D) 3.8%

55. Which one of the following is/are *correct* for the proposed Goods and Services Tax (GST) ?
- (1) GST would be a destination based tax as against the present concept of origin-based tax.
 - (2) GST would be applicable on supply of goods and services.
 - (3) GST would apply on all goods and services except alcohol for human consumption.
 - (4) GST will not be applicable on import and export.
- (A) Only (3) and (4) (B) Only (1), (2), (3)
(C) Only (1) and (2) (D) (1), (2), (3), (4)
56. The phrase 'fine-tuning' used by Water Heller refers to :
- (A) Government's role in regulating inflation and unemployment
 - (B) Government's role in regulating inflation and employment
 - (C) Government's role in regulating deflation and unemployment
 - (D) Government's role in regulating inflation and poverty
57. (i) Keynes expansionary fiscal policies explain that government should cut taxes and raise spendings to get out of slump.
- (ii) Keynes contractionary fiscal policies explain that govt. should raise taxes cut spending to bring the economy out of inflation.
- (A) Both (i) and (ii) are true (B) Both (i) and (ii) are false
(C) Only (ii) is true (D) Only (i) is true

55. प्रस्तावित माल और सेवा कर (GST) के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं ?

- (1) GST, गन्तव्य पर आधारित होगा, जैसा कि वर्तमान में उद्गम आधारित कर ढंग है।
- (2) GST माल की आपूर्ति और सेवा पर लगेगा।
- (3) GST, मानव उपभोग के लिए ऐल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा।
- (4) GST आयात और निर्यात पर नहीं लगेगा।

- (A) केवल (3) और (4) (B) केवल (1), (2) और (3)
(C) केवल (1) और (2) (D) (1), (2), (3) और (4)

56. वाटर हेल्स द्वारा प्रयुक्त कथन "फाइन ट्यूनिंग" किसे संदर्भित करता है ?

- (A) स्फीति और बेरोजगारी नियमन में सरकार की भूमिका
- (B) स्फीति और रोजगार नियमन में सरकार की भूमिका
- (C) अपस्फीति और बेरोजगारी के नियमन में सरकार की भूमिका
- (D) गरीबी और स्फीति के नियमन में सरकार की भूमिका

57. (i) कीन्स प्रसरणशील वित्तीय नीतियाँ यह व्याख्या करती हैं कि सरकार को गिरावट से बाहर आने के लिए करों में कटौती और खर्च में बढ़ोतरी करनी चाहिए।

(ii) कीन्स संक्षेपण वित्तीय नीतियाँ यह व्याख्या करती हैं कि स्फीति से बाहर आने और अर्थ लाने के लिए सरकार को कर में बढ़ोतरी और खर्च में कटौती करनी चाहिए।

- (A) (i) और (ii) दोनों सत्य हैं (B) (i) और (ii) दोनों असत्य हैं
(C) केवल (ii) सत्य है (D) केवल (i) सत्य है

58. According to Rybczynski Theorem :

- (A) Terms of Trade worsen when the country grows
- (B) Increase in exports leads to depreciation of exchange rate
- (C) International Trade cause factors of production to become costly
- (D) If due to growth one of the factor of production increases, other one being constant. The output of the good using the accumulating factor intensively will increase and the output of the other factor will decrease in absolute terms, provided prices of goods and factor remain constant

59. If the national income of the country increases (other thing remaining constant) the net exports will :

- (A) increase
- (B) decrease
- (C) remain unchanged
- (D) increase for sometime and eventually decrease

60. Order the following events in global trade finance :

- (1) Establishment of electronic stock exchange
- (2) Formation of WTO
- (3) The first McDonalds

(A) (1), (2), (3)

(B) (2), (3), (1)

(C) (3), (1), (2)

(D) (1), (3), (2)

58. रिबिन्स्की सिद्धान्त के अनुसार :

- (A) व्यापार की शर्तें और खराब हो जाती हैं जब देश वृद्धि करता है
- (B) निर्यात में वृद्धि से विनिमय दर का अवमूल्यन होता है
- (C) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महंगा होने के लिए उत्पादन के कारक का कारण है
- (D) यदि एक उत्पादन के कारक वृद्धि के कारण बढ़ता है तब दूसरा स्थिर रहता है। संकलन गुणक का उपयोग करते हुए सामान का निर्गम अत्यधिक रूप में बढ़ेगा और दूसरे कारकों का निर्गम शुद्ध रूप में कम हो जायेगा बशर्ते कि माल और कारक के मूल्य स्थिर रहें

59. यदि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है (अन्य चीजें स्थिर रहने की दशा में) तो सकल निर्यात :

- (A) बढ़ेगा
- (B) घटेगा
- (C) अपरिवर्तनीय रहेगा
- (D) कुछ समय के लिए बढ़ेगा और फिर घटेगा

60. विश्व व्यापार और वित्त में निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगायें :

- (1) इलेक्ट्रॉनी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना
- (2) WTO का बनना
- (3) प्रथम मैक्डोनाल्ड

- (A) (1), (2), (3) (B) (2), (3), (1)
- (C) (3), (1), (2) (D) (1), (3), (2)

61. Nash equilibrium :

- (A) is a strategy for a player which gives maximum pay-off
- (B) is a strategy choice for each payer that is best choice for each player given the other's equilibrium strategy
- (C) is a dominant strategy equilibrium
- (D) All of the above

62. A dominant strategy is :

- (A) for which the player's pay-off is positive
- (B) is a best response to any strategy the other players might choose
- (C) is a strategy that rarely chose by a player
- (D) is a mixed strategy

63. If $U = U(x, y) = \min(ax, By)$

(a and B are positive parameters and \min means that utility is given by smaller of the two terms in the parenthesis.)

- (A) The indifference curves of the consumer are straight lines
- (B) Indifference curves are concave to the origin
- (C) The indifference curves vertical straight lines
- (D) Indifference curves are L-shaped

61. नाश साम्यावस्था क्या है ?

- (A) यह उन प्रतिभागियों की एक युक्ति है, जो अधिकतम वेतन देते हैं
- (B) यह प्रत्येक प्रतिभागी के लिए चुनी एक युक्ति है जो कि प्रत्येक प्रतिभागी के लिए सर्वोत्तम चयन है और अन्य को साम्यावस्था युक्ति दी जाती है
- (C) यह एक प्रभावी युक्ति साम्यावस्था है
- (D) उपर्युक्त सभी

62. एक प्रभावी योजना है :

- (A) जिसके लिए भागीदारों का पारिश्रमिक धनात्मक है
- (B) यह किसी योजना के लिए सर्वोत्तम प्रतिक्रिया है, दूसरे प्रतिभागी इसका चयन कर सकते हैं
- (C) यह एक योजना है जो किसी प्रतिभागी द्वारा बहुत कम चयनित होती है
- (D) यह मिश्रित योजना है

63. यदि $U = U(x, y) = \min(ax, By)$

(a और B धनात्मक पैरामीटर हैं और \min का अर्थ है कि वह उपयोग, पैरामीटर में दो पदों के अल्पतर से दिया गया है)

- (A) उपभोक्ता का नगण्यता वक्र सीधी रेखायें हैं
- (B) नगण्यता वक्र, उद्गम के अवतल हैं
- (C) नगण्यता वक्र ऊर्ध्वाधर सीधी रेखायें हैं
- (D) नगण्यता वक्र L-आकार में हैं

64. If $U(x, y) = x + \ln y$, what does the indifference map for the utility function look like ?
- (A) The indifference curve here are 'vertically parallel'
- (B) The indifference curves here are 'horizontally parallel' for any given level of y , the MRS is same no matter what the value of x is
- (C) Indifference curves are not convex to the origin
- (D) Indifference curves are 'straight lines'
65. Public goods in a general equilibrium model sufficient condition is :
- (A) $\sum_{i=1}^n \text{MRS}_{gx}^i = \text{MRT}_{gx}$
- (B) $\text{MRT}_{gx} = \text{MRS}_{gx} - 1$
- (C) $\text{MRS}_{gx} + 1 = \text{MRT}_{gx}$
- (D) None of these
66. Economic growth shifts the Production Possibility Frontier (PPF) :
- (A) down towards right
- (B) up and to the right
- (C) down towards left
- (D) up towards left
67. A laissez-faire economy is one :
- (A) govt. plays a big role in answering the three basic questions what to produce, how to produce, for whom to produce
- (B) in which individuals independently pursue their own self-interest, without any central direction or regulation
- (C) in which government and private sector partially answering three basic questions of economy what to produce, how to produce, for whom to produce
- (D) None of the above

64. यदि $U(x, y) = x + \ln y$, तो उपयोगिता फलन के लिए नगण्यता नक्शा कैसा होगा ?
- (A) नगण्यता वक्र ऊर्ध्वाधर समानान्तर है
- (B) नगण्यता वक्र क्षैतिज समान्तर हैं, y के किसी दिये स्तर में, MRS वही है, यह विचारणीय नहीं है कि x का मान क्या है
- (C) नगण्यता वक्र उद्गम के उत्तल नहीं है
- (D) नगण्यता वक्र सीधी रेखा में है
65. सामान्य साम्यावस्था मॉडल पर्याप्त दशा में सार्वजनिक माल है :
- (A) $\sum_{i=1}^n MRS'_{gx} = MRT_{gx}$ (B) $MRT_{gx} = MRS_{gx} - 1$
- (C) $MRS_{gx} + 1 = MRT_{gx}$ (D) इनमें से कोई नहीं
66. आर्थिक वृद्धि, उत्पाद सम्भाविता फ्रन्टियर (PPF) को स्थानान्तरित करती है :
- (A) नीचे, दाहिनी ओर (B) ऊपर, दाहिनी ओर
- (C) नीचे, बायीं ओर (D) ऊपर, बायीं ओर
67. लेसेज-फेयर अर्थव्यवस्था है एक :
- (A) क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ऐसे मूल प्रश्नों के जवाब देने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है
- (B) जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार स्वतन्त्र रूप में बिना किसी केन्द्रीय निर्देश या नियम के कार्य करता है
- (C) जिसमें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ऐसे आर्थिक आधारभूत प्रश्न का उत्तर सरकार द्वारा और निजी क्षेत्रों द्वारा आंशिक रूप से दिये जाते हैं
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

68. Choose the *correct* formula for Arc Elasticity :

(A) $\frac{Q_1 - Q_2}{P_1 - P_2} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$

(B) $\frac{P_1 - P_2}{Q_1 - Q_2} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$

(C) $\frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{Q_1 + Q_2}{P_1 + P_2}$

(D) $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{Q_1 + Q_2}{P_1 + P_2}$

69. "Each duopolists assumes that other keep their prices constant." This is *correct* in the case of :

(A) Edgeworth Model

(B) Lorenz's Curve

(C) Contract Curve

(D) Sales Maximization Model

70. Cost difference method of separating the substitution and income effects of a price change was proposed by :

(A) JR Hicks and RGD Allen

(B) Eugen Slutsky

(C) F.Y. Edgeworth

(D) Ernst Engel

71. Vertical Fiscal Imbalance :

(A) occurs when the country grows vertically

(B) occurs when taxes are increased and expenditure is decreased

(C) occurs when the burden of tax falls on the producer

(D) occurs when revenue of different levels of government do not match their expenditure responsibilities

68. Arc-प्रत्यास्थता के लिए सही सूत्र चुनिए :

(A) $\frac{Q_1 - Q_2}{P_1 - P_2} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$

(B) $\frac{P_1 - P_2}{Q_1 - Q_2} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$

(C) $\frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{Q_1 + Q_2}{P_1 + P_2}$

(D) $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{Q_1 + Q_2}{P_1 + P_2}$

69. "प्रत्येक इयूपोलिस्ट मानता है कि अन्य अपने मूल्य को स्थिर रखते हैं।" यह किसका सही विषय है ?

(A) एजवर्थ मॉडल

(B) लॉरिन्ज वक्र

(C) कॉन्ट्रैक्ट वक्र

(D) विक्रय अधिकताकरण मॉडल

70. मूल्य परिवर्त का प्रतिस्थापन और आय प्रभाव के पृथक्करण की मूल्य विभेद विधि किसके द्वारा प्रस्तावित की गयी ?

(A) जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलेन

(B) यूजेन स्लट्स्की

(C) एफ.वाई. एजवर्थ

(D) अर्न्स्ट एन्जल

71. ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन कब होता है ?

(A) जब देश ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है

(B) जब कर बढ़ जाते हैं और खर्च कम हो जाता है

(C) उत्पादकों पर कर का भार आ जाता है

(D) जब सरकार के विभिन्न स्तरों की आमदनी उनके खर्च उत्तरदायित्वों से सुमेलित नहीं होती

72. Fiscal Federalism :

- (A) mean federal form of government
- (B) relate to the division of public sector functions and sources of finance in a logical way among multiple layers of government
- (C) relate to finances of the local governments
- (D) means state government does not have any right impose taxes

73. Greater is the degree of monopoly if the cross elasticity of demand is :

- (A) Lesser
- (B) Higher
- (C) Infinity
- (D) No way related

74. Oligopoly is a market structure characterised by :

- (i) Few dominant firms
 - (ii) Homogeneous or differentiated products
 - (iii) Interdependence among the firms
- (A) (i) only
 - (B) (i) and (ii) only
 - (C) (i), (ii) and (iii)
 - (D) (ii) and (iii) only

75. Externalities :

- (A) refer to external effects
- (B) refer to beneficial and detrimental effects of actions of one economic unit (a firm or an individual) on others
- (C) refer to effect on private cost
- (D) refer to effect of action of a private individual on private cost

72. वित्तीय संघवाद :

(A) का अर्थ है सरकार का संघीय रूप

(B) सार्वजनिक क्षेत्र कार्यों के विभाग और वित्त स्रोत को सरकार के बहुस्तरीय में अर्थपूर्ण रूप में सम्बद्ध करता है

(C) स्थानीय सरकार के वित्त को सम्बद्ध करता है

(D) का अर्थ है कि राज्य सरकार को कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है

73. एकाधिकार की कोटि अपेक्षाकृत अधिक होती है यदि मांग की क्रॉस प्रत्यास्थता है :

(A) अपेक्षाकृत कम

(B) अपेक्षाकृत उच्च

(C) अनन्त

(D) किसी तरह सम्बन्धित नहीं है

74. ओलिगोपॉली (स्वल्पाधिकार) एक बाजारी संरचना है जो विलक्षित होती है :

(i) कुछ प्रभावी फर्म से

(ii) समांगी या विभेदी उत्पाद से

(iii) फर्म की परस्परनिर्भरता से

(A) केवल (i)

(B) केवल (i) और (ii)

(C) (i), (ii) और (iii)

(D) केवल (ii) और (iii)

75. बहिर्मुखता किसे संदर्भित करती है ?

(A) बाह्य प्रभावों को

(B) एक आर्थिक इकाई (फर्म या व्यक्तिगत) की क्रियाओं का लाभदायक और हानिकारक प्रभाव दूसरे पर पड़ने को

(C) निजी कीमतों पर प्रभावों को

(D) निजी व्यक्ति की क्रिया का निजी कीमत पर प्रभाव को